



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-31.08.2022

थाना चेतगंज पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त विशाल गिरफ्तार

कब्जे से चोरी गये आभूषण, 14300/-रुपये व 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के पर्यवेक्षण में थाना चेतगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु.अ.सं. 127/2022 धारा 457/380/411 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र सन्तोष निवासी J-8/22 औसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वीसी आवास गली से दिनांक-30.08.2022 समय करीब 03.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गए आभूषण एक अदद चैन पीली धातु की, एक अदद अंगूठी पीली धातु की, एक जोड़ा कान का टप्स पीली धातु का, एक अदद हाथ का कड़ा सफेद धातु का, दो जोड़ी बिछिया सफेद धातु की, तीन जोड़ी पायल सफेद धातु की, एक अदद टूटी हुई पायल सफेद धातु की, 14300/- रुपये नकद तथा कुल 2.100 kg नाजायज गांजा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 129/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-दिनांक-29.08.2022 को वादी मुकदमा श्री आनन्द कुमार राय ने अज्ञात चोर द्वारा रात्रि में उनके घर में घुसकर आलमारी में रखे पर्स व आभूषण चोरी कर ले जाने के संबंध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी में मु.अ.सं.-127/2022 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 सूरज कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विशाल पुत्र सन्तोष निवासी J-8/22 औसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष ।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर अभियुक्त विशाल ने बताया कि यह जो भी सामान लेडिज बैग मे है यह चोरी का है जिसको मैने दिनांक-29.08.2022 को लेबर कालोनी,धूपचण्डी के पास से चोरी किया था तथा दूसरे झोले मे गाँजा रखकर बेचने के लिए जा रहा था कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वीसी आवास गली,आईटीआई कालेज के पास आप लोगों ने पकड़ लिया ।

बरामदगी का विवरण- कुल 2.100 kg नाजायज गांजा एवं चोरी गए आभूषण एक अदद चैन पीली धातु की, एक अदद अंगूठी पीली धातु की, एक जोड़ा कान का टप्स पीली धातु का, एक अदद हाथ का कड़ा सफेद धातु का, दो जोड़ी बिछिया सफेद धातु की, तीन जोड़ी पायल सफेद धातु की, एक अदद टूटी हुई पायल सफेद धातु की व 14300/- रुपये नकद बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 आदित्य सिंह चौकी प्रभारी लहुराबीर थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.उ0नि0 सूरज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी नाटी इमली थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.उ0नि0 श्रीराम उपाध्याय चौकी प्रभारी तेलियाबाग थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4.उ0नि0 सुमन यादव चौकी प्रभारी चेतगंज थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 5.उ0नि0प्रशि0 विकास कुमार मिश्र थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 6.मुख्य आरक्षी गोपाल सिंह थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 7.आरक्षी शिवराम थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 8.आरक्षी राजबहादुर यादव थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 9.आरक्षी लल्ला सिंह थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी